



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 412 राँची, सोमवार

25 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

15 जून, 2015 (ई०)

JKT; fuokbu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

5 जून, 2015

संख्या: 03नि०-107/2011 रा०नि०आ० 1434 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तथ्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायांचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित किया जाता है ।

०१	२	३	४	५
1	gtkjhckx	V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&1	v ^C ny djhe] dfI ; kMhg] p; dyk] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
2		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k & 1	v: .k d ^e kj x[k] >kij pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
3		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	r ^k jk n ^o h i M ^f j ; k] cl f ^j ; k] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
4		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	u ^l hek c ^x e] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
5		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	c ^h rk n ^o h cum] cl f ^j ; k] i M ^f j ; k] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
6		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	e ^y k d ^e kj h vEc ^h r] i M ^f j ; k] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
7		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	I j ^k st i k. M ^s] x ^k sk ^y k] ykgM ^h cgj k] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
8		V g ^t kjhckx@pk ^s kj .k&2	I atq n ^o h] pk ^s kj .k] g ^t kjhckx	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy

				jgA
9		V g _{tkj} h _{ckx} @p _k s _{kj} .k&3	vfurk n _{oh}] I sygjk[k _n] x _k solnij] p _k s _{kj} .k _l g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
10		V g _{tkj} h _{ckx} @p _k s _{kj} .k&3	dfork n _{oh}] u;k fl _{kk} koka p _k s _{kj} .k _l g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
11		V g _{tkj} h _{ckx} @p _k s _{kj} .k&3	j _{huk} n _{oh}] I sygjk dyk] p _k s _{kj} .k _l g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
12		V g _{tkj} h _{ckx} @cj _{gh} &4	; ky fd'k _{ki} I ko] cj _{gh} ryhVkyk] cj _{gh}] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
13		V g _{tkj} h _{ckx} @cj _{gh} &5	cI Urh n _{oh}] dfj; kri _{ij}] cj _{gh}] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
14		V g _{tkj} h _{ckx} @cj dVBk&6	bnfjjk n _{oh}] xMk] cj dVBk] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
15		V g _{tkj} h _{ckx} @cj dVBk&8	byk x _k lokeh] cUMkfI _{kk}] cydlih] cj dVBk] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
16		V g _{tkj} h _{ckx} @b _p kd&9	i Yyo _h n _{oh}] n _o dyh] b _p kd] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
17		V g _{tkj} h _{ckx} @b _p kd&10	i ekn d _ø mi k; k _l] fryjk] ukokMhg] b _p kd] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
18		V g _{tkj} h _{ckx} @i nek&11	vt _{ip} i _ø egrk] inek] g _{tkj} h _{ckx}	i kflr j l h _n ij mik; Ør dk; k _y ; ds fdI h deh _z dk gLrk[kj ughagA
19		V g _{tkj} h _{ckx} @dVdeI k _{Mh} &13	d _ø eyrk n _{oh}] I yel] yik] [k _w jk] dVdeI k _{Mh}] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
20		V g _{tkj} h _{ckx} @dVdenkx&14	mesk jke] ckuknkx] I yrkul] i l b _ø dVdenkx] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA
21		V g _{tkj} h _{ckx} @dVdenkx&14	i ou dekj j td] el jkrq dVdenkx] g _{tkj} h _{ckx}	fuokpu 0; ; kadh y _{kk} nkf[ky djuseavl Qy jgA

22	V g _{tkjhckx@dvdenkx&14}	I jsk jke] dVdenkx] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
23	V g _{tkjhckx@dvdenkx&14}	uFkjke] d[pi] j[okyh] dVdenkx] g _{tkjhckx}	Li "Vhdj.k l rkktud ughA
24	V g _{tkjhckx@cMdkxk&15}	e[O vklj j mYkg] MMhd[yk] cMdkxk] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
25	V g _{tkjhckx@cMdkxk&15}	I hrkjke I ko] t[kj] pi kdyk] cMdkxk] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
26	V -g _{tkjhckx@Mkmh&18}	fclnq noh] gkf] j] dudh] Mkmh] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
27	V g _{tkjhckx@Mkmh&18}	I qkeuh noh] jyhx<k i 0] Mkmh] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
28	V g _{tkjhckx@pjip&19}	v'kkd dekj ; kno] pjpwg _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
29	V g _{tkjhckx@pjip&19}	t; idk'k ; kno] ck[njk] pjpwg _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
30	V g _{tkjhckx@pjip&19}	fot; dekj] pjgh] pjpwg _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
31	V g _{tkjhckx@pjip&19}	I khj ckLd} fpph[kn] pukj} pjpwg _{tkjhckx}	Li "Vhdj.k l rkktud ughA
32	V g _{tkjhckx@nk: &22}	vfr dekj] ftuxk egskjk] nk:] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
33	V g _{tkjhckx@nk: &22}	mn; 'kdj n[} i [kb] nk:] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
34	V g _{tkjhckx@nk: &22}	Nnh Bkdj] n[efj ; k] i [kb] dfoyk h] nk:] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
35	V g _{tkjhckx@Vkh>fj ; k&23}	mek noh] Vkh>fj ; k] g _{tkjhckx}	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

36	V g _t k _j h _c k _x @V _k V _h >fj ; k&23	fe'ku noh] >fj ; k] V _k V _h >fj ; k] g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
37	V g _t k _j h _c k _x @V _k V _h >fj ; k&23	I k _u fu'kk] >j i k _u V _k V _h >fj ; k] g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
38	V g _t k _j h _c k _x @fo".k _u <&24	xk; =h noh] pydjh[kp] [kjuk] fo".k _u <} g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
39	V g _t k _j h _c k _x @fo".k _u <&24	noUrh noh] jevk] cmkgfj ; kjuk fo".k _u <} g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
40	V g _t k _j h _c k _x @fo".k _u <&24	jgkuk i johu] uoknk] fo".k _u <} g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
41	V g _t k _j h _c k _x @fo".k _u <&24	jatqnoh] ckjk] vjdkmhg] [kjuk] fo".k _u <} g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA
42	v g _t k _j h _c k _x @fo".k _u <&25	gl hc _u [kkru] ujdh[kp] ujdh fo".k _u <} g _t k _j h _c k _x	fuokpu 0; ; kadh y[kk nlf[ky djuseavl Qy jgA

jkt; fuokpu vk; Dr ds vknsk I §
(g0@&) અસ્પષ્ટ

I fpo
jkt; fuokpu vk; ks]
>kj [k.M] jkh A
